



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1663]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2011/भाद्र 5, 1933

No. 1663]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2011/BHADRA 5, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2011

का.आ. 2000(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 75 के 15.600 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 176.202 कि.मी. तक के भू-खण्ड (ग्वालियर-शिवपुरी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्वालियर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के 15/600 कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 178/202 कि.मी. तक के भूखण्ड (ग्वालियर से शिवपुरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्वालियर	ग्वालियर	(1) चराई श्यामपुर	1	निजी	असिंचित	0.080
				2	शासकीय	आबादी	0.028
				3	शासकीय	खालखददर	0.052
				4	शासकीय	तालाब	0.017
				16	शासकीय	पड़ाव	0.238
				18	शासकीय	पड़ाव	0.170
				17	शासकीय	पड़ाव	0.210
				88	शासकीय	चरनोई	0.364
				89	निजी	असिंचित	0.204
				99	निजी	असिंचित	0.012
				100	निजी	असिंचित	0.210
				112	शासकीय	नाला	0.024
				113	शासकीय	कदीम	0.070
				114	निजी	असिंचित	0.031
				115	निजी	असिंचित	0.074
				116	निजी	असिंचित	0.111
				117	निजी	असिंचित	0.099
				120	निजी	असिंचित	0.041
				121	निजी	असिंचित	0.054
				127	निजी	असिंचित	0.070

1	2	3	4	5	6	7	8
				128	निजी	असिंचित	0.065
				130	निजी	असिंचित	0.116
				131	निजी	असिंचित	0.235
				132	निजी	असिंचित	0.440
				152	निजी	असिंचित	0.161
				153	निजी	असिंचित	0.224
				157	निजी	सिंचित	0.203
				158	निजी	सिंचित	0.340
				159	शासकीय	नहर खन्ती	0.042
				160	शासकीय	चंबल नहर	0.035
				465	निजी	असिंचित	0.081
				466	निजी	असिंचित	0.028
				468	निजी	असिंचित	0.012
			(2)चराई रेहट	320	शासकीय	कदीम	0.178
				321	शासकीय	कदीम	0.046
				316/1	शासकीय	पड़त	0.144
				316/2	निजी	पड़त	
				316/3	निजी	पड़त	
				313	शासकीय	आबादी	0.190
				312/1/1	शासकीय	आबादी	1.000
				312/1/2	शासकीय	स्कूल / खलिहान	
				312/1/3	निजी	पड़त	
				312/1/4	निजी	पड़त	

1	2	3	4	5	6	7	8
				312/2	निजी	पड़त	
				312/3/1	निजी	पड़त	
				312/3/2	निजी	पड़त	
				270 मिन	शासकीय	रेलवे	0.052
				331	शासकीय	कदीम	0.099
				332	शासकीय	नाला	0.021
				294 मिन	शासकीय	नाला	0.026
				294 मिन	शासकीय	रेलवे	0.042
				268/1	निजी	पड़त	0.084
				268/2	निजी	पड़त	
				193	निजी	असिंचित	0.024
				180	शासकीय	नहर	0.002
				183/1	निजी	पड़त	0.117
				183/2	निजी	पड़त	
				322	शासकीय	तालाब	0.209
				323	शासकीय	आबादी	0.208
				324	शासकीय	आबादी	
				326	शासकीय	आबादी/मंदिर	0.090
				327	शासकीय	कुँआ	0.010
				328 मिन	निजी	पड़त	0.400
				329	शासकीय	कुँआ	0.021
				188	शासकीय	नहर	0.021
				187	शासकीय	पठार	0.630

1	2	3	4	5	6	7	8
				269	निजी	पड़त	0.300
				299 मि	निजी	पड़त	0.140
				192	शासकीय	रेलवे लाइन	0.115
				184	शासकीय	रेलवे लाइन	0.251
				270 मि	शासकीय	नाला	0.060

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू शिवपुरी/54]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2011

S.O. 2000(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 3 on the stretch of land from Km. 15.600 of National Highway No. 75 to Km. 176.202 of National Highway No. 3 (Gwalior-Shivpuri Section) in District Gwalior in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer (Revenue), Gwalior, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

3282 GI/11-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 15.600 of National Highway No. 75 to Km.176.202 of National Highway No.3 (Gwalior-Shivpuri Section) in the State of Madhya Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (In hectares)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gwalior	Gwalior	(1) Chrai Shyampur	1	Private	Non-Irrigated	0.080
				2	Government	Abadi	0.028
				3	Government	Khalkhaddar	0.052
				4	Government	Pond	0.017
				16	Government	Padav	0.238
				18	Government	Padav	0.170
				17	Government	Padav	0.210
				88	Government	Charnoi	0.364
				89	Private	Non-Irrigated	0.204
				99	Private	Non-Irrigated	0.012
				100	Private	Non-Irrigated	0.210
				112	Government	Nalah	0.024
				113	Government	Kadim	0.070
				114	Private	Non-Irrigated	0.031
				115	Private	Non-Irrigated	0.074
				116	Private	Non-Irrigated	0.111
				117	Private	Non-Irrigated	0.099
				120	Private	Non-Irrigated	0.041
				121	Private	Non-Irrigated	0.054
				127	Private	Non-Irrigated	0.070

1	2	3	4	5	6	7	8
				128	Private	Non-Irrigated	0.065
				130	Private	Non-Irrigated	0.116
				131	Private	Non-Irrigated	0.235
				132	Private	Non-Irrigated	0.440
				152	Private	Non-Irrigated	0.161
				153	Private	Non-Irrigated	0.224
				157	Private	Irrigated	0.203
				158	Private	Irrigated	0.340
				159	Government	Nahar khanti	0.042
				160	Government	Nahar Chambal	0.035
				465	Private	Non-Irrigated	0.081
				466	Private	Non-Irrigated	0.028
				468	Private	Non-Irrigated	0.012
			(2) Charai Rehat	320	Government	Kadim	0.178
				321	Government	Kadim	0.046
				316/1	Government	Uncultivated	0.144
				316/2	Private	Uncultivated	
				316/3	Private	Uncultivated	
				313	Government	Abadi	0.190
				312/1/1	Government	Abadi	1.000
				312/1/2	Government	School/Khaliyan	
				312/1/3	Private	Uncultivated	
				312/1/4	Private	Uncultivated	

3282 GI/11-3

1	2	3	4	5	6	7	8
				312/2	Private	Uncultivated	
				312/3/1	Private	Uncultivated	
				312/3/2	Private	Uncultivated	
				270 Min	Government	Railway	0.052
				331	Government	kadim	0.099
				332	Government	Nalah	0.021
				294Min	Government	Nalah	0.026
				294 Min	Government	Railway	0.042
				268/1	Private	Uncultivated	0.084
				268/2	Private	Uncultivated	
				193	Private	Non-Irrigated	0.024
				180	Government	Nahar	0.002
				183/1	Private	Uncultivated	0.117
				183/2	Private	Uncultivated	
				322	Government	Pond	0.209
				323	Government	Abadi	0.208
				324	Government	Abadi	
				326	Government	Abadi/Mandir	0.090
				327	Government	Well	0.010
				328 Min	Private	Uncultivated	0.400
				329	Government	Well	0.021
				188	Government	Nahar	0.021
				187	Government	Pathar	0.630

1	2	3	4	5	6	7	8
				269	Private	Uncultivated	0.300
				299 Min	Private	Uncultivated	0.140
				192	Government	Railway line	0.115
				184	Government	Railway line	0.251
				270 Min	Government	Nalah	0.060

[F. No. NHAI/PIU Shivpuri/54]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.